

#### BHARAT GEARS LIMITED

Read. Office & Works: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Box 328

P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana) INDIA Tel.: +91 (129) 4288888, Fax: +91 (129) 4288822-23

E-mail: info@bglindia.com

Corporate Identity Number: L29130HR1971PLC034365

#### BGL/SEC/NSE/3/JANUARY 2018-2019

BGL/SEC/BSE/2/JANUARY 2018-2019

January 23, 2019

The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd "Exchange Plaza", 5th Floor, Plot No. C-1, G - Block.

Bandra Kurla Complex. Bandra (E), Mumbai - 400051

SYMBOL: BHARATGEAR

The Manager (Listing) **BSE Limited** 

1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building PJ Towers, Dalal Street Fort. Mumbai - 400001

STOCKCODE: 505688

Sub: Published Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2018

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 ("the Regulations"), please find enclosed herewith copy of the Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2018 published by the Company in the newspapers i.e. "Financial Express" (English) and "Jansatta" (Hindi) on 23<sup>rd</sup> January, 2019.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully.

For Bharat Gears Limited GEAR

**Prashant Khattry** 

Head (Legal) & Company Secretary

Encl: As above



Mumbai Office: 14th Floor Hoechst House, Nariman Point, Mumbai - 400 021 INDIA Tel.: +91(22) 2283 2370, Fax :+91-(22) 2282 1465, Email: info@bharatgears.com Mumbra Works: Kausa Shil, Mumbra, Distt. Thane-400 612, (Maharashtra) INDIA Tel.: +91(22) 2535 2034, 2535 7500, Fax: +91(22) 2535 1651

www.bharatgears.com

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

# NCLAT may look into issue of frivolous bids under CIRP

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 22

THE NATIONAL COMPANY Law Appellate Tribunal (NCLAT) on Tuesday said it will look into cases where companies file bid to acquire debt ridden firms, but fail to pursue it.

The appellate tribunal indicated that it may pass an order in this regard, where companies file "frivolous" bids in the corporate insolvency resolution process (CIRP) and then fail to take it forward.

"We would decide that what action should be taken against such companies," said a two member NCLAT bench headed by Chairman Justice S J Mukhopadhaya.

NCLAT's observation came



during the hearing of ARGL Ltd, a subsidiary of debt ridden auto components maker Amtek, where UK-based Liberty House has emerged as the highest bidder.

The company is asking Liberty House to submit a bank guarantee after emerging as the highest bidder.

However, senior advocate A S Chandiok representing Liberty House, submitted that

there are three group companies of Amtek and it would be economical and feasible for the

group only if it gets all the three companies. According to him, all the three companies, where it is a resolution applicant, were

inter dependent on each other. He also requested the appellate tribunal to move the resolution process all together before one bench.

"If they are simultaneously resolved, then we are ready for that," he added. However, the bench was not

inclined towards this and said: "It can not be conditional".

The appellate tribunal has directed to list the matter of ARGL on February 5, 2019 for next hearing.

# Govt notifies new testing track for rlys in Rajasthan

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 22

**SOON, THE RAILWAYS** will conduct trials of its new trains and technology on a 40-km exclusive testing track in Rajasthan which has now been given the status of a 'special railway project' by the Centre.

Once completed, India will enter the league of countries like the United States, Germany, China and Australia that have dedicated tracks for train trials. In a notification dated January 21 the Centre notified the project, the first such track in the country, as a special railway project, thus fast tracking its construction.


Special railway project means a project, notified as such by the central government from time to time, for providing national infrastructure for a public purpose in a specified time-frame. Getting the special project tag helps with

faster land acquisition for it.

The dedicated track, to be built between Gudha and Thathana Mithri stations in Jodhpur Division of North Western Railway, will be used to conduct tests like coupler force trials, oscillation trials and emergency braking distance trials, which are necessary for safety of passengers and goods.

In the first phase, a 25-km track will be constructed, a straight track of about 20 km and the rest will be a curved track of radius 1750 m and 875 m, at a cost of ₹4 billion, an official said. The test track will have all the specifications of a normal track which will include bridges, curves and even speed restrictions at certain areas.

At present, the railways is conducting tests of all its locomotives, wagons and equipment on commercial railway tracks which raises a lot of questions on the issue of safety.



### WORLD ECONOMIC FORUM, DAVOS

## India to become bigger than China eventually: Rajan

PRESS TRUST OF INDIA Davos, January 22

**INDIAWILLEVENTUALLY** surpass China in economic size and will be in a better position to create the infrastructure being promised by the Chinese side in South Asian countries, former RBI governor Raghuram Rajan said on Tuesday.

Addressing a session on Strategic Outlook for South Asia, Rajan said Indian economy would continue to grow while growth rate is slowing down in China.

"Historically, India had a bigger role in the region but China has now grown much bigger than India and has presented itself as a counter balance to India in the region," Rajan said at the WEF Annual Meeting 2019.

"India will become bigger than China eventually as China would slow down and India would continue to grow. So

India will be in a better position to create the infrastructure in the region which China is promising today. But this competition is good for the region and it will benefit for sure," he said.

The comments assume significance with China working on a lot of infrastructure projects across the region, including in Nepal and in Pakistan.

sixth largest economy with a GDP of \$2.59 trillion while China was the second larges with a GDP of \$12.23 trillion, as per World Bank data.

At the same session, Nepal Prime Minister KP Sharma Oli cited collaboration with China as well as India as reasons for his country's economic growth.

Abdullah also pitched for greater collaboration among the countries in the region. Rajan said there is an

In 2017, India became the

Afghanistan CEO Abdullah



Former RBI governor Raghuram Rajan

opportunity to create regional companies, and cited as an example that someone can just

study how people in South Asia borrow and that would be great insight for banks.

Besides free trade agreement (FTA), there is a lot of scope for work to be done. Apart from business, social sector can be another way and we can have more sharing of students across the region, he added.

While noting that people movement and especially youth going to another country can have a strong impact, Rajan said that India is the largest country in the region and it must play the role it needs to play.

There are many places where India has funded the process, but a lot more can be done, including on trade side, so that tariffs can come down, he noted.

He also asked industries to work towards convincing their governments for taking the necessary steps.

Rajan said he is hopeful of results, if not today, then may be at Davos meetings later.

# Never mind climate change, Davos prefers private jets

**AGENCE FRANCE-PRESSE** Davos, January 22

THE DAVOS ELITE say they are more worried than ever about climate change. But that isn't stopping them chartering private jets in record numbers.

The convenience and comfort of flying privately rather than commercially appears to outweigh any concerns about the outsized carbon footprint it involves, judging by a numbercrunching exercise by the company Air Charter Service (ACS).

It forecast nearly 1,500 private jet flights over the week of the World Economic Forum (WEF) to airports near Davos in the Swiss Alps. That would be up from the more than 1,300 aircraft movements seen at last year's forum, despite climate change registering as the top risk factor identified for the global economy in a survey of WEF movers and shakers last week.

In a blog post, the website

privatefly.com forecast an even higher number of private flight movements related to Davos this week, of around 2,000 in and out of local airports. And while most people reach Davos by car or train after alighting from airports such as Zurich, two to three hours' away, a select few CEOs and government leaders hire helicopters to save time.

Demand for private jets in the week of Davos far outstrips other events that also loom large on the private aviation calendar, such as the Super Bowl or Champions' League final, according to Andy Christie, private jets director at ACS.

"We have had bookings from as far as our operations in Hong Kong, India and the US -

- no other event has the same global appeal," he said in a statement And the trend is towards even more expensive, larger private jets such as the Gulfstream GV and Bom-

bardier's Global Express.

"This is at least in part due to some of the long distances travelled, but also possibly due to business rivals not wanting to be seen to be outdone by one another," Christie said.

WEF organisers insist they are making the annual forum environmentally sustainable, offsetting the carbon emissions generated by private aviation as much as possible through their own initiatives on the ground. "We encourage our partners from business and others to take that (offsetting measures) on," Dominique Waughray, head of Global Public Goods at the WEF, told AFP last week.

# Nothing's taboo for new IMF chief economist, first woman in job

Washington, January 22

**BLOOMBERG** 

**GITA GOPINATH HAS** a knack for asking the kind of questions that, not so long ago, might have raised eyebrows inside the International Monetary Fund, where she just took over as chief economist.

What if more emerging markets actively managed their currencies, like China does? What if an influx of capital risks sapping a nation's productivity, not boosting it?

Interrogating the data for answers, and using them to poke holes in the conventional playbooks for economic policy, was a hallmark of 47-year-old Gopinath's work at Harvard. Now she'll be expected to recommend practical fixes — at a turbulent moment when the free-market principles promoted by the Fund for decades are under attack.

Especially in borrower countries like Greece and Argentina, the IMF still gets portrayed as an enforcer of one-size-fits-all policies based on austerity and the unimpeded flow of goods and money. But that's been out of date for a while now. Fund economists advocated debt relief in Greece. They've said capital controls can be useful, and cautiously backed redistributive taxes. When Argentina had to find budget savings, they insisted that the poor shouldn't bear too much of the burden.

Don't Be Dogmatic The shift is likely to con-

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION dated 22.01.2019, regarding Announces one time Property Tax Amnesty Scheme 2018-19. The date 21.03.2004 may be read as 31.03.2004 and date 31.01.2019 mentioned in Highlighted Hurry up portion may be read as 31.03.2019. Other terms and conditions shall remain unchanged. Ro No. 164/DPI/S/2018-19



Gita Gopinath, chief economist, IMF

tinue under Gopinath, who became the first woman to hold one of the most influential jobs

B

in economics when she took over from Maurice Obstfeld this month. She'll oversee the Fund's research, including its closely watched growth forecasts at a time when uncertainty is mounting. The IMF on Monday down-

graded its global outlook for the second time in three months to show the weakest expansion this year since 2016. More than a decade since the IMF and other economists failed to predict the financial crisis, Gopinath used her debut press conference to highlight mounting risks, including the trade war and tightening credit.

In her new role, Gopinath plans to use the "broadest lens possible" in search of solutions. Part of her job will be to review the fund's loan programs, giving her a voice in practical policy making.

"A rethink of globalization is pressing," and it should address the distribution of benefits as well as the impact of new technologies, she said in an emailed response to questions.

In her academic career, Gopinath has been willing to follow the empirical evidence wherever it leads.

"What Gita's thinking has pointed out is, let's not be dogmatic," said Mohamed El-Erian, chief economic adviser at Allianz SE and a former IMF economist.

### JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004 **GRAND AUCTION** KEY PLAN OF PASS (DELHI-AJMER HIGHWAY) MELODIA GROUP HOUSING **COMMERCIAL PLOT NO-08 (CORNER) AT GANDHI PATH** Kuber Complex KUBER COMPLEX SCHEME, ROAD 30.00 M GANDHI PATH

5

Time: 2:30 PM MAP NOT TO SCALE **Bid Start Price** B.A.R. Area Ground Earnest Height (Sq.Mtr.) without Betterment levy (Per Sq. Mtr.) Coverage As per available 63\* ₹1.50 Crore 10,000.00 ₹77,000/-40% height Mtr.

**AUCTION PLACE: JDA AUCTION HALL** 

For Terms & Conditions of Auction Please log on Website: www.jda.urban.rajasthan.gov.in or contact

O.S.D. (Resource Mobilization) Ph: 0141-2569696 (7021, 7226, 1128, Cell: 91+9414310207

CHITRAKOOT NAGAR

GPS Coordinates: Latitude:- 26°54'23.16"N, Longitude:- 75°44'13.59"E

**Deputy Commissioner (Zone-7)** Cell: 91+9783955522

**Auction Date: 11.02.2019** 

\* 63 Mtr. or NOC from Airport Authority, which ever is less.

## HARAT GEARS LIMITED Regd. Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad-121003 (Haryana) **Ph.:** +91 (129) 4288888 **Fax:** +91 (129) 4288822-23 E-mail: info@bglindia.com Web: www.bharatgears.com CIN: L29130HR1971PLC034365



STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED 31 DECEMBER, 2018

(₹ in lacs) Quarter **Particulars** Nine months No. period ended ended 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017 (Unaudited) (Unaudited) Unaudited) Total income from operations 15,527 45,119 12,950 Net profit for the period (before tax, exceptional and/or 734 1,894 extraordinary items) 386 734 1,894 Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items) 473 281 Net profit for the period after tax (after exceptional and/or 1,215 extraordinary items) 279 Total Comprehensive Income for the period [Comprising 460 1,176 profit for the period (after tax) and Other Comprehensive 6. Equity share capital 814 814 814 Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in 6,968 6,968 5,866 the Audited Balance Sheet of the previous year \* 5.81 \* 3.50 \* 14.93 8. Earnings per share [Face value of ₹ 10 /- each (\* not annualised)] Basic and diluted (₹)

### Notes:

Place: New Delhi

**Date: 22 January, 2019** 

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months period ended 31 December, 2018 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months period ended 31 December, 2018 Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com).
- Ind AS 115 Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after 01 April, 2018, replaces existing revenue recognition requirements. Under the modified retrospective approach there were no significant adjustments required to the retained earnings at 01 April, 2018. Also, the application of Ind AS 115 did not have any significant impact on recognition and measurement of revenue and related items in the financial results.
- 3. The Board of Directors at their meeting held on 09 October, 2018 have approved the proposed issue of equity shares for an amount not exceeding ₹ 1500 lacs to existing shareholders on rights basis. Accordingly, the Company has filed draft letter of offer with SEBI on 10 December, 2018.
- 4. Previous period's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

For and on behalf of the Board of Directors

SURINDER PAUL KANWAR

Chairman & Managing Director

Lenovo

NOW YOU KNOW WHAT MAKES SOME CAB RIDES MORE ENTERTAINING.



Money

Lenovo tablets help India's leading cab aggregator provide streaming content to their customers. To know how we can partner with your business, call 1800 4199 732, give a missed call on 92231 27777 or email us at corpsales@lenovo.com.

LENOVO is a trademark of Lenovo. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2019 Lenovo

# मुनाफा वसूली से सूचकांक 134 अंक टूटा

मुंबई, 22 जनवरी (भाषा)

शेयर बाजारों में मंगलवार को पांच दिन से चली आ रही तेजी का सिलसिला थम गया। निवेशकों द्वारा धातु, वित्तीय और वाहन कंपनियों के शेयरों में मुनाफा काटने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के कमजोर रुख से यहां बाजार नीचे आ गए। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) ने 2019 और 2020 के वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान को कम कर दिया है, जिससे बाजार दबाव में रहे।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 134.32 अंक टूटकर 36,444.64 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 39.10 अंक के नुकसान से 10,922.75 अंक पर आ गया। बाजार में हालिया तेजी के बाद निवेशक मुनाफा काट रहे हैं। हालांकि, कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने से व्यापक धारणा सकारात्मक रही। सूचकांक 36,649.92 अंक पर मजबूत रुख से खुलने के बाद घरेलू संस्थागत निवेशकों और खुदरा भागीदारों की लिवाली से 36,650.47 अंक के उच्चस्तर तक गया। हालांकि, निवेशकों की मुनाफावसूली से सूचकांक जल्द नकारात्कक दायरे में आ गया और इसने 36,282.93 अंक का निचला स्तर भी छुआ। अंत में सूचकांक 134.32 अंक या 0.37 फीसद के नुकसान से 36,444.64 अंक पर बंद हुआ। इससे पिछले पांच सत्रों में सूचकांक 725 अंक मजबूत हुआ था।

# झारखड: 85,429 करोड़ का बजट पेश

रांची, 22 जनवरी (भाषा)।

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को 2019-20 के लिए 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 2.26 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का 85,429 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें राजस्व व्यय 65,803 करोड़ रुपए व पूंजीगत व्यय 19,626 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा 7,155.63 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्त वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.26 फीसद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रावधान की गई सकल राशि को यदि अलग-अलग क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए, तो सामान्य क्षेत्र के लिए 23,377 करोड़ रुपए, सामाजिक क्षेत्र के लिए 28,882 करोड़ रुपए तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपए उपबंधित किये गये हैं।बजट अनुमान के अनुसार राज्य को अपने कर राजस्व से करीब 20,850 करोड़ रुपए तथा गैर कर-राजस्व से 10,674.20 करोड़ रुपए, केन्द्रीय सहायता से 13,833.80 करोड़ रुपए, केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 29,000 करोड़ रुपए, लोक ऋग से करीब 11,000 करोड़ रुपए तथा उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 71 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 3,16,731 करोड़ रुपए आकलित किया गया है। यह वर्ष 2017-18 के 2,86,598 करोड़ रुपए की तुलना में 10.5 फीसद वृद्धि को दर्शाता है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2,36,866 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की 2,21587 करोड़ रुपए की तुलना में 6.9 फीसद अधिक है।

## वाणिज्य मंत्रालय ने सेज पुनरुद्धार रिपोर्ट पर संबंधित पक्षों के विचार मांगे

नई दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा)।

वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) का पुनरुद्धार करने पर सौंपी गई एक

समिति की रिपोर्ट पर संबंधित पक्षों से उनके विचार मांगे हैं। भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाली एक समिति नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से गठित इस समिति ने सेज के पुनरूत्थान के लिए कर प्रोत्साहनों को जारी रखने और कई अन्य उपायों को शुरू किए जाने का सुझाव दिया है।

एक समय था जब सेज का देश के निर्यात कारोबार में उल्लेखनीय योगदान था लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें दिए गए कर प्रोत्साहनों को वापस ले लिया और न्यूनतम वैकल्पिक कर और लाभांश वितरण कर लगा दिया। इसके बाद सेज का

आकर्षण कम हो गया। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा है- संबद्ध पक्षों की तरफ से रिपोर्ट पर जो भी सुझाव दिए जाने हैं उन्हें 30 जनवरी तक देना होगा। रिपोर्ट में सेज को फिर से बेहतर बनाने के लिए कुछ और भी सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सेज का नाम बदलकर रोजगार व आर्थिक परिसर रख दिया जाना चाहिए। इसमें जो सनसेट अनुच्छेद है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। प्रोत्साहनों को निवेश, रोजगार, प्रौद्योगिकी और मूल्य वर्धन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिये और सेवा क्षेत्र में कर लाभ दिया जाना चाहिए। मध्यस्थ अदालतों के जरिए विवादों का तुरंत समाधान होना चाहिए। सेज में गैर- प्रसंस्करण क्षेत्रों में दोहरे इस्तेमाल में लचीलापन लाने एमएसएमई योजनाओं विस्तार इन क्षेत्रों को करने सहित कुछ और सिफारिशें इसमें की गईं हैं। सेज कानून 2005 में बना था। सेज के नियमों के

साथ यह 10 फरवरी 2006 को

लागू हुआ।

### पुराने पड़ चुके मंजूरी नियमों में बदलाव हो : आइएसी

नई दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा)।

एनपीजी वाहन किट और ईंधन का कारोबार करने वाली कंपनियों के मंच इंडियन आटो एलपीजी कोलिशन

(आइएसी) ने वाहनों को गैस ईंधन के इस्तेमाल में बदलने से संबंधित पुराने पड़ चुके नियमों को बदलने की जरूरत है। इससे वाहनों को आसानी से पर्यावरणनुकूल ईंधन के इस्तेमाल योग्य बनाया जा सकेगा।



पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, केजी मार्ग, नई दिल्ली-110001

शाखा का पताः 8वाँ तल. डीसीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-23357170/74, ईमेलः customercare@pnbhousing.com शाखा का पताः 201, 2रा तल, मेगा पोलिस स्क्वॉयर, 579, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001 (म.प्र.) फोनः 0731-2530881-82, ईमेलः customercare@pnbhousing.com

#### प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, यथा-संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सुचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. (यहां के बाद ''पीएनबीएचएफएल'') ने एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011 में स्थित गाजियाबाद शाखा कार्यालय एवं साथ ही 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 में स्थित हमारी दिल्ली शाखा एवं साथ ही द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''अधिनियम'' के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना जारी किया था। उक्त मांग सचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को हमारे प्राधिकत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय–वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतदुद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पर्ण राशि का भगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सुचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम⁄ पता	गारन्टर का नाम/ पता	गिरवी सम्पत्ति	मांग सूचना तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि
1.	एचओयू/डीईएल/ 1215/256107 बी.ओ. दिल्ली	श्री विकास दीक्षित, श्रीमती अर्चणा दीक्षित जी-102, प्रथम् तल, एवीजे हाइट्स जीटा-1, नीएडा, उत्तर प्रदेश तथा साथ ही 707, 7, टावर I, एवीजे हाइट्स प्लॉट नं. जीएच-12/2, सेक्टर-जीटा-1, ग्रेटर नीएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत-		707, 7, टावर I, एवीजे हाइट्स प्लॉट नं. जीएच-12/2, सेक्टर-जीटा-1, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत-201310	3.1.2019	3.1.2019 को रु. 31,07,068.21
2.	0001 6660007822 बी.ओ.: दिल्ली	श्री अनीश अहमद, फ्लैट नं. एफ- 3, एफएफ, एमआईजी, अमन रेजीडेन्सी VII, प्लॉट नं. 840, शालीमार गार्डन, एक्स्टें1, गाजियाबाद, उ.प्र201006, तथा साथ ही: सी-12/22, यमुना विहार, दिल्ली-110053	सी-4/144, दूसरा तल, यमुना विहार, दिल्ली- 110053	फ्लैट नं. एफ-3, एफएफ, एमआईजी, अमन रेजीडेन्सी VII, प्लॉट नं. 840, शालीमार गार्डन, एक्स्टें1, गाजियाबाद, उ.प्र201006	9.1.2019	9.1.2019 को रु. 1577216.15
3.	0001 6660008169 बी.ओ.: दिल्ली	श्रीमती रीतु जैन, श्री अंकुरजैन, 2794-ए, गली नं. 4, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली- 110031	9/2000, गली नं. 4,		2.1.2019	2.1.2019 को रु. 2154169.55
4.	30 6660001825 बी.ओ.: गाजियाबाद	श्रीमती मुनेश सिंह रघुवंशी, श्रीमती अदिति रघुवंशी एवं श्री एपीएस रघुवंशी, सी-8, एफ-4, भू तल, चन्दर नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)- 201011		फ्लैट नं 404, 4था तल, ब्लॉक-5, पंचशील प्रतिष्ठा, प्लॉट नं 16, सेक्टर-75, नोएडा (उ.प्र.)- 201307	10.1.2019	10.1.2019 को रु. 3174810.97
5.	एचओयू/ आईएनडी/ 1215/ 255817 बी.ओ.: इन्दौर	श्री सुमित पॉल, पुत्र श्री सुशांतो पॉल, श्री सुशांतो पॉल, पुत्र श्री जी.सी. पॉल, आरजेड-17, गली नं. 25-ए, इन्द्रा पार्क, पालम कॉलोनी, मदर डेयरी के निकट, नई दिल्ली-110045		फ्लैट नं 604, छठा तल, ओपल ओरिस, ब्लॉक-5, सर्वे नं. 6, 8/2/2/2/1, 24- 376/10/1/2/1, 9-10/1/2/1 जो ई-8, एक्स्टेंशन, आकृति ईको-सिटी के पीछे, ग्राम मिस्रॉड, तहसील हुजूर, पटवारी हल्का नं. 42, म्यूनिसिपल वार्ड नं 52, भोपाल-462016 (म.प्र.) में स्थित है।	28.12.2018	28.12.2018 को रु. 2005719.42

स्थानः गाजियाबाद/दिल्ली/इन्दौर, तिथि: 22.01.2019

प्राधिकत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि

### पंजाब नैशनल बैंक ..भरोसे का प्रतीक !

शाखा- खेड़ा पिलखुवा, जिला-हापुड़ भौतिक कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्न्सटक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेटस इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्टेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति / सम्पत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है। ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति / सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति / सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बँक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भूगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

व पता	ऋणी का नाम व पता	प्रापर्टी का विवरण	की तारीख 13(2)	सांकेतिक कब्जा नोटिस की तारीख	नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख को बकाया राशि (13/2)
शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश, खाता सं0 3705001B000	पुत्र श्री ओम प्रकाश, पताः गांव—खेड़ा, पोस्ट – खास, पिलख्वा, जिला	आवासीय मकान, क्षेत्रफल 118.00 वर्ग गज (98.65 वर्ग मीटर), स्थित गांव —खेड़ा, निकट पिलखुवा, परगना—डासना, तहसील— धौलाना, जिला — हापुड़। संपत्ति श्री रवि कुमार शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश के नाम। सीमायें:— पूर्व— घेर कन्हैया, 19 भुजा, पश्चिम— रास्ता, भूजा 19, उत्तर— मुकेश का मकान, भूजा 56, दक्षिण— भूमि कन्हैया की भूमि, भूजा 56।	05.09.2016	09.01.2017	17.01.2019	रु. 5,19,969.00 + 01.07.2016 से ब्याज + अन्य खर्चे
दिनांक : 22	2-01-2019	स्थान :	मेरठ		प्राधिव	<b>हृत अधिकारी</b>

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31.12.2017 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी

#### करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग लें सकते हैं। नीलामी की तिथि: 31.01.2019

Delhi - Rajouri Garden (Bali Nagar): MGL-1270, 1760, 1780, MHL-69, 73, 81, MOS-37, 38, MSL-37006, 37493, 37497, 37499, 37500, 37501, 37517, 37549, 37580, 37605, 37621, 37623, 37647, 37664, MUL-6, 16, 43, 48, 49, 87, 163, 199, 211, 223, 234, 235, 275, 276, 280, 281, 282, 286, Mayapuri: MES-50, 55, MLS-160, MSL-36844, 44205, MUL-47, 68, 78, 81, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 128, 144, Janakpuri: MAL-685, MSL-32372, 32795, 32808, 32832, 32833, 32869, 32875, MUL-33, 34, 35, 70, 81, 91, 93, 95, 96, Tilak Nagar: MAL-860, 1045, 1046, MGL-1180, MLS-42, MSL-26042, 27360, 27512, 27538, 27597, 27656, 27657, 27674, 27755, MUL-29, 63, 73, 89, 90, 97, 113, 137, 138, 149, 150, 158, 162, 184, Uttam Nagar: MAL-543, MGL-473, 891, 1078, MSL-18045, 18119, 18141, 18157, 18368, MUL-5, 25, 44, 56, 72, 73, 76, 81, 82, 89, 99, 103, 105, 107, 115, 119, 135, 139, Jail Road (Janakpuri-II): MAL-1109, 1279, MGL-664, MSL-24108, 24149, 24150, 24212, 24332, 24333, 24334, 24352, 24363, 24367, 24386, 24405, 24416, 24423, 24430, 24474, 24540, 24544, 24548, MUL-12, 42, 72, 107, 108, 122, 130, 136, 152, 153, 154, 157, Main Najafgarh Road (Tilak Nagar): MAL-492, MGL-650, 850, MLS-46, MUL-29, 30, 70, 85, 87, Rajouri Garden: MGL-1018, 1536, 1597, 1602, 1630, MSL-9657, 9709, 9864, MUL-1, 31, 33, 36, 37, 54, 60, 61, 84, 86, 122, 132, 133, 134, 138, 159, 161, 174, Vashisht Park Janakpuri: MAL-447, MLS-6, 7, MUL-30, 39, 45, 52, 79, 84, 152, Kirti Nagar: MGL-1199, MLS-29, 30, 33, MUL-19, 21, 37, 48, 55, 85, 92, 120, 122, Milap Nagar: MGL-2520, 2645, MPL-47, MSL-23012, 23050, 23179, 23197, 23236, 23250, 23280, 23283, 23397, 23400, 23490, MUL-23, 54, 122, 129, 139, 140, 154, 172, 174, 176, 181, 197, 198, 217, 236, 244, 255, 257, 271, 273, 278, Mahavir Nagar: MAL-593, MHL-68, MSL-11272, 11292, 11301, MUL-2, 4, 13, 32, 41, 46, 58, 59, 60, 62, 66, 83, 123, 127, 129, Tagore Garden: MSL-14792, 14849, MUL-10, 29, 33, 41, 50, 86, 109, 132, 146, Hari Nagar Ghantaghar: MGL-816, MLS-24, 26, MSL-11370, 11386, MUL-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 43, 82, 99, 106, Vishnu Garden: MAL-1288, MSL-13717, 13751, 13789, 13863, 13865, 13875, MUL-46, 48, 54, 58, 84, 89, 106, 112, Ganesh Nagar: MSL-9537, 9860, 9861, 9914, 9938, 9943, 9966, MUL-32, 59, 70, Mansarovar Garden: MSL-6666, MUL-48, Ramesh Nagar: MGL-729, 887, 1083, MLS-55, 56, 57, MOS-41, 42, MSL-8484, MUL-2, 34, 44, 65, 78, Naraina: MAL-470, MBL-1536, MSL-9220, 9279, 9342, 9448, 9458, MUL-89, 90, 110, 113, 119, 142, 143, 144, 149, 155, 162, Moti Nagar: MAL-973, MGL-2220, MLS-80, 84, 88, 99, 100, MSL-17526, 17544, 17552, 17553, 17625, 17760, 17782, 17810, MUL-21, 35, 38, 65, 97, 114, 133, 142, 166, 190, 199, 200, 213, Indrapuri: MAL-632, 699, 751, MBL-2200, 2363, MGL-1608, MSL-13777, 13812, 13818, 13905, 13908, MUL-5, 21, 61, 63, 68, 72, 88, 92, 98, 99, 119, 129, 149, 153, 154, 155, 156, 168, 169, Subhash Nagar: MAL-646, MGL-776, 1109, MLS-1, MSL-10475, 10485, MUL-13, 21, 35, 45, Mukhram Garden: MAL-598, MSL-10888, 10934, 10950, 10952, 11028, 11043, 11062, 11099, 11106, MUL-9, 40, 86, 92, 96, 101, 115, 139, 152, 154, Nangal Raya: MSL-3644, 3928, Minakshi Garden: MSL-4078, 4119, 4130, 4132, 4157, MUL-3, 37, 52, Old Tilak Nagar: MSL-6542, 6581, 6632, MUL-30, 52, 58, 59, 79, 112, Santgarh: MAL-566, MGL-1114, 1162, MSL-10030, 10034, 10111, MUL-32, 42, 52, 62, 70, 71, 79, 107, 114, 115, 132, 147, 165, 167, 172, 203, 211, 215, Karampura: MSL-4221, 4224, MUL-52, 54, 68, 70, Khayala Road: MBL-1296, MSL-4260, 4275, 4276, 4323, MUL-12, 19, 24, 32, 35, 69, 91

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.06.2018 की अवधि तक एनपीए खाते) नीलामी की तिथि: 31.01.2019

Delhi-Tilak Nagar: MUL-676, Mahavir Nagar: MUL-234, Naraina: MHL-60, Old Tilak Nagar: MUL-552, Santgarh: MUL-1719

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कुपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक 01.02.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र The Muthoot Finance Limited., A-33/34, 1st Floor, Ring Road, Rajouri Garden, Delhi - 110027 में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

नीलामी की तिथि: 05.02.2019

Delhi - Najafgarh: MAL-1224, 1250, MGL-1206, 1615, 1616, 1776, 1777, 1922, 2075, 2142, 2238, 2268, 2326, 2333, 2353, 2423, 2490, 2499, 2534, 2565, 2594, 2681 MHL-100, MLS-98, MSL-19239, 19282, 19288, 19335, 19336, 19350, 19378, 19392, 19418, 19420, 19457, 19498, 19517, 19522, 19535, MUL-8, 31, 52, 67, 74, 75, 88, 114, 120, 124, 128, 139, 142, 146, 151, 157, 184, 185, 186, 187, 209, 216, 235, Sewak Park (Dwarka More): MAL-964, MGL-1683, 2983, 3062, MLS-97, 109, 110, MSL-20773, 20806, 20837, 20928, 20952, 20953, 20970, MUL-7, 14, 64, 97, 105, 106, 127, 160, 174, 212, 220, 222, 232, 248, 263, 292, 293, Nawada: MGL-304, 803, 1123, 1202, 1366, MHL-44. MSL-9925. 9933. 9934. 9936. 9937. 9952. 10650. 10707. 10743. 10770. 10818. 10918. 10920. 10968. 10984. 11018. 11070. MUL-14. 16, 64, 70, 94, 97, 119, 129, 135, 140, Arya Samaj Road Uttam Nagar: MAL-766, MGL-1220, MSL-14225, 14649, 14714, 14739, 14759, 14774, MUL-10, 37, 61, 66, 76, 78, 82, 94, 104, 105, 116, 130, 155, Som Bazar Jeewan Park: MBL-1452, MGL-1391, 1392, MLS-9, 13, 20, 27, MSL-6284, 7178, 7179, 7882, 9077, 9174, 9244, MUL-5, 53, 85, 104, 130, 142, 143, 151, Hastsaal: MAL-1058, 1225, MBL-2732, MGL-2557, 2559, 2847, 2878, MSL-12246, 12263, 12465, 12483, 12489, 12517, MUL-13, 21, 23, 24, 32, 45, 48, 60, 79, 115, 159, 166, 172, 178, 188, 224, 240, 254, 260, 295, Najafgarh - Old Roshan Pura: MAL-1044, MSL-11762, 11763, 11802, 11837, 11851, 11884, MUL-5, 19, 26, 29, 37, 66, 68, 90, 95, 96, 104, 109, 123, 128, 169, 183, 184, 187, 191, 195, 211, 232, 234, 236, 245, 246, 264, Mohan Garden: MBL-1826, 1881, MGL-963, MSL-12670, 13549, 13652, 13776, 13779, 13830, 13832, 13843, 13864, 13885, 13888, 13891, 13918, 13947, MUL-8, 22, 27, 48, 51, 57, 71, 80, 81, 84, 117, 120, 128, 132, 135, 137, 143, 186, 187, 188, 227, 257, 279, 280, 315, 328, Matiala Road: MAL-501, MGL-1524, 1585, MSL-10482, 10491, 10492, MUL-6, 60, 115, 117, 129, 164, Laxmi Vihar Bhagwati Garden: MGL-727, MSL-5973, 6018, 6020, MUL-22, 53, 56, 58, 62, 63, Sunargali Najafgarh: MBL-1038, MGL-1711, 2068, MSL-8290, MUL-7, 12, 23, 44, 48, 49, 64, 67, 87, 89, 117, 124, 129, 134, 140, 146, 158, 175, 176, 177, 183, 190, 191, 200, Uttam Nagar - Dal Mill Road: MSL-7213, 7279, 7323, MUL-5, 13, 36, 62, 73, 81, 93, 99, 105, 120, 123, 131, 166, 174, 189, 191, Chawala: MUL-5, 10, 24, 44, 51, 56, 60, Ranaji Enclave: MAL-7, MSL-48, 51, 63, 73, 78, 88, 96, 97, 99, MUL-5, 8, 21, 44, 45, 46, 68, 71, 100, 107, 114 कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (30.06.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)

नीलामी की तिथि: 05.02.2019

Delhi - Mohan Garden: MUL-264, Sunargali Najafgarh: MUL-1762 नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।

हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में यह संबंधित नीलामी वहाँ दिनांक 06.02.2019 को क्रमशः नीलामी केंद्र Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, H.No.B 2, Nangli Vihar, Ranaji Enclave, West Delhi-110043 में संचालित की जाएगी / जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएँ नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461. पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।





Geared for Life

6,968

\* 5.81

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाामों का वर्णन

(₹ लाखों में) विवरण समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त तिमाही 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) 15,527 45,119 12,950 परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, अपवादित एवं/अथवा 734 1,894 386 असाधारण वस्तुओं से पूर्व) अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ 386 734 1,894 (अपवादित एवं / अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद) अवधि के लिए कर के पश्चात शुद्ध लाभ 281 473 1,215 (अपवादित एवं / अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद) अवधि के लिए कुल व्यापक आय [जिसमें अवधि के लिए 460 1,176 279 लाभ (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल है। समता अंश पूंजी

प्रितिअंश आय

|मूल एवं तरल (₹)

[₹10 / — प्रत्येक (\*अवार्षिकृत)]

- 1. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गये 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह अवधि के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह अवधि के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> एवं <u>www.bseindia.com</u> पर उपलब्ध हैं।
- 2. 01 अप्रैल, 2018 तथा उसके पश्चात की रिपोर्टिंग अवधि के लिए अनिवार्य इण्ड ए एस 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व मौजूदा राजस्व पहचान आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित करता है। संशोधित पूर्वप्रभावी दृष्टिकोण के अधीन 01 अप्रैल, 2018 को प्रतिधारित कमाई में कोई भी महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इण्ड ए एस 115 के प्रयोग का राजस्व की पहचान एवं माप तथा वित्तीय परिणामों में संबंधित चीजों पर कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव
- निदेशक मण्डल ने 09 अक्टूबर, 2018 को उनकी बैठक में मौजूदा शेयरधारकों को अधिकारिक आधार पर ₹ 1500 लाख की अधिकतम रकम के प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के इश्यू को मंजूरी दी है। तदनुसार, कंपनी ने 10 दिसंबर, 2018 को सेबी के साथ प्रारूप प्रस्ताव पत्र दायर किया है।
- 4. पूर्व अवधि के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पूनः समृहित / पूनः वर्गीकृत किया गया हैं।

अन्य इक्विटी (पूर्नमूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) जिसे पूर्व वर्ष की अंकेक्षित बैलैंस शीट में दर्शाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ता / –

6,968

\* 14.93

5,866

\* 3.50

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 22 जनवरी, 2019

सुरिंदर पॉल कंवर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

#### **OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-II** DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, PATEL CHOWK, NEW DELHI R.C. No. 358/2015& RC No.70/2016 SALE PROCLAMATION DATED:-24.12.2018

**OBC VS. M/S NITIKA GLOBAL ENTERPRISES** PROCLAMATION OF SALE UNDER RULES 38, 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961

READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTIONS ACT. 1993 CD No.1 M/s Nitika Global Enterprises Plot No. F.C. Block B-1 (Extension), Mohan Co-operative Industrial Area, Mathura Road, Badar Pur, New Delhi-110044, Also at: E-220, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, Also at: 380, Second Floor, Chirag

CD No.2 Sh. Suresh Kumar Goel S/o Sh. Madan Lal Agarwal 127-A, Sainik Farm, New Delhi.

CD No.3 Mrs. Nitika Goel, W/o Sh. Rajiv Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi CD No.4 Sh. Sameer Goel, S/o Sh. Suresh Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi

CD No.5 Mrs. Anita Goel, W/o Sh. Suresh Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi OBC VS. M/S ZEN INTERNATIONAL

CDs.1. M/s Zen International Limited, E-220, Greater Kailash Part -I, New Delhi-110048 Sh. Suresh Kumar Goel, S/o Sh. Madan Lal Goel, r/o 127-A, Sainik Farm, New Delhi, Also at : E-220, Greater Kailash Part-I

Shri Rajeev Goel S/o Shri Suresh Kumar Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi. Also at : E-220, Greater Kailash-I, New Delhi

Manish Anand, S/o Shri K.L.Anand, r/o 14/11, Pant Nagar, J.P.Extension, New Delhi — 110 014 Mrs. Anita Goel, W/o Sh. Suresh Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi

Shri Sanjiv Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi. Shri KS Butalia, 39, Sadhna Enclave, New Delhi.

Sh. Samir Goel, 127-A, Sainik Farm, New Delhi. Mrs. Santosh Anand, 14/11, Pant Nagar, J.P. Extension, New Delhi

Whereas you has/have failed to pay the sum of Rs.1,65,77,764.62 (Rupees One Crore Sixty Five Lakhs Seventy Seven Thousand Seven Hundred Sixty Four and Paisa Sixty Two Only) payable by you/him as per recovery certificate in TA. No.500/2002/DRT-III, Delhi dated 05.11.2015 issued by the Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Delhi, and the interest and costs payable as per recovery certificate RC No.358/2015 and sum of Rs.46,01,297.60 (Rupees Forty Six Lakhs One Thousand Two Hundred Ninety Seven and Paisa Sixty Only) payable by you/him as per recovery certificate in TA. No.299/2002/DRT-III, Delhi dated 05.11.2015 issued by the Presiding Officer Debts Recovery Tribunal, Delhi, and the interest and costs payable as per recovery certificate RC No.70/2016. And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule below in satisfaction of the said certificate.

And whereas a sum of Rs.1,65,77,764.62 (Rupees One Crore Sixty Five Lakhs Seventy Seven Thousand Seven Hundred Sixty Four and Paisa Sixty Two Only) and Rs.46,01,297.60 (Rupees Forty Six Lakhs One Thousand Two Hundred Ninety Seven and Paisa Sixty Only) alongwith incidental expenses and interest thereon @12% P A simple from the date of filing of the OA i.e. 12.08.2013, jointly and severally, till its realization in full are due against the you/CDs.

Notice is hereby given that in absence of any order of Postponement, the said property shall be sold on 28.02.2019 between 03:00 P.M. t 04:00 P.M. (with auto extension clause in case of bid in last 5 minutes before closing, if required) by e-auction and bidding shall take place through "On line Electronic Bidding" through website:-M/s C1 India Pvt. Ltd. Udyog Vihar, Phase-2, Gulf Petrochem Building, Building No. 301, Gurgaon, First Floor, Haryana-122015, Help Line No. +91-124-4302020/21/22/23/24, Mob: 09813887931, e-mail ID:

support@bankeauctions.com. For further details contact: Shri Narender Singh Bisht, Authorized Officer of CH Bank, Mobile No.8171626615. The sale will be of the property of the defendant above named as mentioned in the schedule below and the liabilities and claims attaching to

the said property, so far as they have been ascertained, are those specified in the schedule against each lot. The property will be put up for the sale in the lots specified in the schedule. If the amount to be realized is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale also be stopped if, before any lot is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the undersigned

No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale, however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in Second Schedule of the Income Tax Act, 1961 and the rules made there under and to the further following conditions. The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned

shall not be answerable for any error, mis-statement or omission in this proclamation. The reserve price below which the property shall not be sold are: Property description. Reserve price/EMD

S.No Property being No.127A, Sainik Farms, New Delhi built over Rs.11.51 Crores (Rupees Eleven Crore Fifty One land admeasuring 3 Bighas and 4 biswas out of Khasra No.313 Lakhs Only) Rs.11.51 Lakhs (Rupees Eleven Lakhs min. situated at Village Khanpur, Tehsil Mehrauli, New Delhi. Fifty One Thousands Only)

The amount by which the biddings are to be increased shall be Rs.1,00,000/ (Rupees One Lakh Only). In the event of any dispute

arising as to the amount of bid, or as to the bidder, the lot shall at once be again put up to auction. 3. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot. It shall be in the discretion of the undersigned to

decline/acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. EMD of Rs.11,51,000/-(Rupees Eleven Lakhs Fifty One Thousands Only) shall be deposited by 26.02.2019 by way of DD/pay order in favour Recovery Officer-II, Debt Recovery Tribunal-III, Delhi to be deposited with Recovery Officer, DRT-III, Delhi in the sealed cover. EMD deposited thereafter shall not be considered for participation in the e-auction.

The copy of PAN card, Address proof and identity proof, E-mail ID, Mobile No, and declaration if they are bidding on their own behalf or on behalf of their principals. In the latter case, they shall be required to deposit their authority, and in default their bids shall be rejected. In case of the company copy of resolution passed by the board members of the company or any other document confirming representation /attorney of the company and the receipt/counter file of such deposit should reach to the said service provider or CH

Bank by e-mail or otherwise by the said date and hard copy shall be submitted before the Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi. EMD of unsuccessful bidder/s shall be returned to him/them on the next date of hearing in the matter by Ld. Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi after moving appropriate application. 7. The successful bidder shall have to deposit 25% of his final bid amount after adjustment of EMD by next bank working day i.e.

by 3:00 P.M.in the said account as per detail mentioned in para 4 above. B. The successful highest bidder shall deposit the balance 75% of final bid amount on or before 15th day from the date of sale of the property. If the 15th day is Sunday or other Holiday, then on the first bank working day after the 15th day by prescribed mode as stated in para 4 above. In addition to the above the purchaser shall also deposit poundage fee with Recovery Officer-II, DRT-III @2% upto Rs.1,000/- and @1% of the excess of said amount of Rs.1,000/- through DD in favour of The Registrar, DRT-III, Delhi

In case of default of payment within the prescribed period, the deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or the amount deposited. The property shall be resold, after the issue of fresh proclamation of sale. Further the purchaser shall also be liable to make good of any shortfall or difference between his final bid amount and the price for which it is subsequently sold.

11. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time

10. The property is being sold on "AS IS WHERE IS AND AS IS WHAT IS BASIS".

Mehrauli, New Delhi,

No. of Lots	Description of the property to be sold with the names of the co-owners where the property belongs to the defaulter and any other person as co-owners.	Revenue assessed upon the property or any part thereof	Details of any other encumbrance to which property is liable	Claims, if any which have been p forward to the property, and any other known particulars bearing its nature and value	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Property being No.127A, Sainik Farms, New Delhi built over land admeasuring 3 Bighas and 4 biswas out of Khasra No.313 min. situated at Village Khanpur, Tehsil	Not available	Not available	Not available	

(Vikash Jaitly) Given under my hand and seal on this 24th day of December, 2018 Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi